

FAHAN
INTERNATIONAL
SCHOOL
HOLIDAY HOMEWORK

NAME

CLASS

ROLL NO.

SUBJECT

- Please paste this page on the front cover of the copy
- Make index table of your homework on the first page of the copy.

CLASS-5th

SUB- ENGLISH

1. Make a chart on the project 'FRIENDSHIP IS LEARNING'. Collect pictures of your friend and paste them.
2. Write 10-20 sentences on how to return home safely during this pandemic after the school is over.
3. Do cursive writing in your cursive writing book (1 to 10 pages).
4. Revise and learn your previous chapters.

NOTE: Do all this work in a separate copy.

SUB- हिन्दी

- 1 संज्ञा के भेदों को परिभाषित कर चित्रों के माध्यम से एक प्रोजेक्ट बनाइए। (ए3 साइज शीट पर)
- 2 कोरोना वायरस से बचने के उपाय लिखिए और चित्र भी बनाइए अपनी कॉपी में।
- 3 प्रतिदिन एक पेज का सुलेख करें और एक पेज की रीडिंग करें, और कठिन शब्दों का श्रुतलेख करें।
- 4 पी.ए.वन का सिलेबस याद करें।

SUB- SCIENCE

1. Draw the picture of germination of seeds.
2. Write down 8 lines to maintain hygiene.
3. Draw 2-2 pictures of plants that grow by stems, roots, seeds.
4. Grow one medicinal plant in a pot.

SUB- SOCIAL SCIENCE

1. Learn and revise what is done in copy.
2. Read chapter 1, 2, 3 and 4 and learn difficult words.
3. Paste a world map in holiday homework copy. And also label all continents and oceans.
4. Make a model of globe.

SUB- COMPUTER

1. Make a chart on generations of computer.
2. Make a flow chart on computer languages. (Use A4 size sheet)
3. Revise PA 1 syllabus.

SUB- MATH

Q1. Write each of the following in numeral form:

- (1) Eight thousands twelve.
- (2) Five lakh seven thousands four hundred six.
- (3) Eight crore four lakh twenty five.

Q2. Write the following numbers in word:

- (1) 4,05,045 (2) 7,06,04,014 (3) 25,12,00,216

Q3. Write the successor of the following:

- (1) 2,46,03 (2) 32,02,16,003

Q4. Write the predecessor of the following:

- (1) 10,11,201 (2) 96,20,11,321

Q5. Write the place value of 8 in 18,06,256.

Q6. Write the place value of 5 in 12,25,36,214.

Q7. Write the following in ascending order:

(1) 35,65,25,360 ; 35,65,25,351 ; 35,65,25,365 ; 35,25,65,350

(2) 12,28,261 ; 12,28,266 ; 12,28,255 ; 12,28,250

Q8. Write the following in descending order:

(1) 65,12,356 ; 65,12,400 ; 65,12,250 ; 65,12,561

(2) 1,20,003,100 ; 1,20,003,102 ; 1,20,003,200 ; 1,20,003,201

Q9. Solve the following:

(1) $34,28,006 + 2,12,621 - 12,20,560$

(2) $65,12,350,850 - 10,25,005,75 + 2,12,52,322$

Q10. The population of Assam is 5,35,002,652 and that of Andhra Pradesh is 2,25,16,210.

How many more people live in Assam?

Q11. Find the product of the following:

(1) 4567×13

(2) 356×125

Q12. Divide the following:

(1) $65398 \div 120$

(2) $47508 \div 35$

Q13. Find the HCF of the following by prime factorisation method:

(1) 57 and 114

(2) 72, 118, 198

Q14. Find the HCF of the following by long division method:

(1) 28 and 108

(2) 160,220,390

Q15. The sum of two numbers is 8436950. If one of the numbers is 2136691. Find the other number?

SUB- URDU

1. Revise taught lessons of PA 1 syllabus.